



The Indian Steel & Wire Products Limited  
A Subsidiary of **TATA** Steel Limited

# तार समाचार

अक्टूबर-दिसम्बर 2019

## प्रबंध निदेशक की कलम से

प्रबंध निदेशक की कलम से,

नववर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह वर्ष ISWP परिवार के लिए सुरक्षित और खुशियों से भरपूर रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।

ISWP दिवस पर आयोजित 18 दिसंबर 2019 को ऑफिसर क्लब में एक भव्य समारोह में मैंने आपके बीच अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया था। मैं पुनः तार समाचार के माध्यम से अपने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों को कंपनी के विकास, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सहृदय धन्यवाद देता हूँ।

मेरी यह कामना है की मेरा 'तार परिवार अपने उज्ज्वल भविष्य और सुरक्षित जीवन के लिए वर्ष 2020 के लिए कुछ संकल्प करे। जब यह पत्रिका आपके हाथ में हो और आप ये मेरा सन्देश पढ़ रहे हो तो आप ये संकल्प करें।

मैं यह संकल्प लेता/लेती हूँ की :

1. अपने परिवार और खुद की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षित नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।
2. अपने घर और कार्यस्थल को साफ रखूँगा/रखूँगी।
3. घर हो या कार्यस्थल, समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहूँगा/रहूँगी।
4. निराकरण के लिए 'काल करे सो आज और आज करे सो अब' के सि)ांत को अपनाऊँगा/अपनाऊँगी।
5. खुद को और परिवार के सदस्यों को सदैव सकारात्मक सोच और व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करूँगा/करूँगी।
6. मैं खुद को सदैव कुछ नया करने एवं सीखने लिए प्रेरित करूँगा / करूँगी।
7. प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों, पहल में भागीदारी से सफलता सुनिश्चित करने का प्रयास करूँगा/करूँगी।
8. मैं अपने कार्य को सदैव उल्लास पूर्वक करूँगा/करूँगी।
9. मैं खुद को एक अच्छा इंसान बनाने का अथक प्रयास करूँगा/करूँगी।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि तार परिवार के सभी सदस्य इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए कंपनी और परिवार में सफलता की नई कहानी लिखेंगे।

'भूतकाल की गोद से निकला 'आज' हूँ मैं,  
भविष्य में जो गूँजेगी वो आवाज हूँ मैं।

शुभेच्छाओं के साथ  
*Neeraj Lamb*

## मानव संसाधन सम्बन्धी गतिविधियां

### स्टार ऑफिसर ऑफ द मंथ

विभिन्न क्षेत्रों में साकारात्मक योगदान करने वाले ऑफिसरों को उस माह 'स्टार ऑफिसर ऑफ द मंथ' घोषित किया जाता है। प्रोक्योरमेंट के श्री.अनुरोध गोराई (अक्टूबर माह), राँड मिल के श्री विनोद कुमार (नवंबर माह), बाइडिंग वायर के श्री राकेश कुमार सिंह (दिसंबर माह) को स्टार ऑफिसर ऑफ दी मंथ घोषित किया गया। सभी अधिकारियों को प्रबंध निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया।



अनुरोध गोराई



राकेश कुमार सिंह



विनोद कुमार

### टॉप रेकोज्

एच.आर पहल के तहत कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने एवं उनके प्रतिभा को उभारने के उद्देश्य से 'टॉप रेकोज्' योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अनुसार कर्मचारियों की उपलब्धियों को पॉइंट से इंगित किया जाता है। प्रत्येक त्रैमास में जिन कर्मचारियों के पॉइंट सबसे अधिक हैं, उन्हें प्रबंध निदेशक द्वारा 'टॉप रेकोज्' अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष के द्वितीय त्रैमास में राँड मिल के श्री के.वी.एन राव, श्री शाश्वत आदित्य एवं वायर मिल के श्री राहुल पांडेय को टॉप रेकोज् घोषित किया गया। राँड मिल से सुनील कुमार, अवतार महतो, ब्रजेश कुमार सिंह, मैटनेंस के अमरेंद्र कुमार सिंह एवं एडमिंस्ट्रेशन के गंधर्व सिंह एसोसिएट्स में टॉप रेकोस घोषित हुए।



के.वी.एन राव



राहुल पांडेय



शाश्वत आदित्य



## सेवा निवृत्ति



राम नरेश शर्मा  
27 वर्ष कार्यकाल  
(रॉड मिल)

इस वित्तीय वर्ष तृतीय तिमाही में निम्नलिखित दो कर्मचारी सेवा-निवृत्ति हुए। हम उनके स्वस्थ भविष्य और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं।



आशीष कांति बिस्वास  
31 वर्ष कार्यकाल  
(पावर यूटिलिटी एवं सिविल)

## टी.क्यू.एम. सम्बन्धी गतिविधियां

### सुझाव योजना

FY'20 के द्वितीय त्रैमास में अत्यधिक स्वीकार्य सुझाव देने वाले सुझावकर्ता वायर मिल के श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, रॉड मिल के श्री विनोद कुमार, श्री चन्दन कुमार, एवं जेम्को के श्री अमित कुमार को प्रबंध निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया।



अमरेंद्र कुमार सिंह



विनोद कुमार



चन्दन कुमार



अमित कुमार

## इनोवेशन मंथ

आई.एस.डब्ल्यू.पी में अक्टूबर माह को इनोवेशन माह के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर 2019 को कंपनी ऑडिटोरियम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में प्रबंध निदेशक श्री नीरज कांत एवं यूनियन अध्यक्ष श्री राकेश्वर पांडेय द्वारा उद्घाटन किया गया। इनोवेशन माह के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण माह विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मॉडल, काइजेन, गेम्बा काइजेन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट फॉर फैमिली आदि का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारी, कांटेक्टर, एवं कर्मचारी के परिवार के सदस्यों ने भाग लिया।



प्रतियोगिता	टीम
बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट	15 टीम
मॉडल	17 टीम
काइजेन	12 टीम
गेम्बा काइजेन	13 टीम
बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट फॉर फैमिली	10 प्रतिभागी



## टी.पी.एम. गतिविधियां

टी.पी.एम सलाहकार श्री सुरजीत देब ने एक दिवसीय दौरा के दौरान 30 नवंबर 2019 को TPM एक्टिविटी रिपोर्ट की तैयारी की जाँच की। चैप्टर 1,2 ,3 और सभी पिलर के write-up को चेक किया और सुधार के लिए अपने सुझाव दिये। कंपनी वर्ष 2020 में TPM लेवल 2 स्टेज के असेसमेंट के लिए तैयारी कर रही है ।

## आई एस डब्ल्यू.पी डे :

आई एस डब्ल्यू.पी के इतिहास में 20 दिसंबर अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस के रूप में माना जाता है एवं सम्पूर्ण माह विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की भागीदारी होती है।

इसका उद्देश्य कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की छुपी हुई प्रतिभा को सबके समक्ष उजागर करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है।

1. टैलेंट शो - 10 दिसंबर 2019 को ISWP ऑडिटोरियम में कर्मचारियों एवं, ठेका कर्मचारियों के लिए टैलेंट शो का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसमें विजेता रहे :

संगीत प्रतियोगिता - प्रबजोत सिंह (प्रथम), एकता सिंह श्रीनेत (द्वितीय), बिजोया लक्ष्मी पटनायक (तृतीय)।

नृत्य प्रतियोगिता - श्रीधरा गोस्वामी (प्रथम), शाश्वत आदित्य (द्वितीय), सौमंदु राय (तृतीय)।

समूह नृत्य - श्रीधरा गोस्वामी एवं शाश्वत आदित्य।

11 दिसंबर 2019 को कर्मचारी वार्ड के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में 43 बच्चों के भागीदारी रही। जिसमें विजेता रहे :(5 -8 वर्ष) संगीत प्रतियोगिता- तृष्णा राँय (प्रथम) - पुत्री श्री रतनेश राय, प्रांजल सिंघा (द्वितीय) - पुत्र श्री संतु सिंघा, प्रियांशी जेना (तृतीय)- पुत्री श्री बी.सी. जेना।

एलोक्युशन - अमन कुमार (प्रथम) - पुत्र श्री अशोक कुमार, प्रत्युषा चटर्जी (द्वितीय) - पुत्री श्री प्रोसंत चटर्जी, शिप्रा सिद्धि महतो (तृतीय) - पुत्री श्री अनुपमा महतो

(9 -11 वर्ष) नृत्य प्रतियोगिता में मनप्रीत बहल (प्रथम), सलोनी कुमारी (द्वितीय), मनीषा सिंह (तृतीय)

एलोक्युशन- खुशी (प्रथम) - पुत्री श्री ए. के. तिवारी, प्रियशा दास (द्वितीय) - पुत्री श्रीमती कावेरी, आशुतोष कुमार (तृतीय) - पुत्र श्री संतोष कुमार सिंह

संगीत - गायत्री कृष्णा (प्रथम), शुभोमिता सरकार (द्वितीय),

2. जॉय ऑफ गिविंग वीक - इस सप्ताह के दौरान समस्त एकप्रित फण्ड एवं सामग्री को चेशायर होम में वितरित किया गया।

3. ड्राइंग प्रतियोगिता - कर्मचारी वार्ड के ड्राइंग प्रतियोगिता में कुल 75 बच्चों ने भाग लिया स 3 - 8 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम अंशु राज, द्वितीय दीपिका महतो, तृतीय काव्या कुमारी एवं 9 -16 आयु वर्ग में प्रथम स्पृहा साहू, द्वितीय रिशु आनंद, तृतीय सोनाली रहे।

4. मिनी मैराथन - आई.एस.डब्ल्यू.पी में कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए आयोजित मिनी मैराथन में 247 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसमें 18 वर्ष से अधिक पुरुष वर्ग में अभिषेक (प्रथम), अवतार (द्वितीय), मनीष (तृतीय), एवं महिला वर्ग में सलमा मर्डी (प्रथम), सीमा आभा (द्वितीय), सीतांजलि दास (तृतीय) विजेता रहे।

5. लॉन्ग सर्विस अवार्ड जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष कंपनी में काम करके बिताया है उन्हें 'लॉन्ग सर्विस अवार्ड' द्वारा सम्मानित किया गया। 23 कर्मचारियों ने

25 वर्ष, 46 कर्मचारियों ने 30 वर्ष और 1 कर्मचारी ने 40 वर्ष कंपनी को अपने कार्य द्वारा समर्पित किया।

6. उड़ान टीम द्वारा महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित लघु नाटिका प्रस्तुत किया गया।

7. टैलेंट शो के दौरान विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

8. सी.एस.आर गतिविधि के तहत विभिन्न विभागों द्वारा ज्ञानोदया विद्यालय में विजिट किया गया एवं विद्यार्थी को स्टेशनरी, खाद्य पदार्थ, खेल-कूद से सम्बंधित सामग्री को उपहार स्वरुप दिया गया।

9. रक्त दान शिविर - 24 दिसंबर 2019 को जेम्को लर्निंग सेंटर में रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 66 यूनिट रक्त एकत्रित हुए।

10. विभिन्न विभागों के पदाधिकारी ने चेशायर होम का दौरा किया, उन्हें उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराया।



## के.एम.चैपियन

अपनी जानकारियों को सभी के साथ शेयर करने का सबसे उत्तम माध्यम नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल है। प्रत्येक त्रैमास में अत्यधिक नॉलेज शेयर करने वाले विभाग को के एम् चैपियन घोषित किया जाता है। इस वर्ष के द्वितीय त्रैमास में जेम्को टीम सबसे अधिक नॉलेज पीस देकर के .एम् चैपियन बनी।



## सुझाव मेला

आई.एस.डब्ल्यू.पी. एवं जेम्को में 22 नवंबर 2019 को एक दिवसीय सुझाव मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष गौरतलब का विषय है की कर्मचारियों ठेका कर्मचारियों एवं EPAs द्वारा 100% ऑनलाइन सुझाव प्राप्त किया गया। पिछले वर्ष हमने सुझाव मेला में 1389 सुझाव प्राप्त किये थे जो की इस वर्ष बढ़कर 2036 हो गए। इस उपलब्धि में सभी कर्मचारियों, वायर प्रोडक्ट लेबर यूनियन, जेम्को वर्क यूनियन, अधिकारियों, सभी DSMC कमिटी, वालंटियर की भागीदारी सराहनीय रही।

विभाग	कुल
रॉड मील	571
वायर मील	423
जनरल सर्विसेज	299
जेम्को	711
बेल्डिंग/नेल बिजनेस	32
कुल	2036




## सी.एस.आर. गतिविधियां



9 से 14 नवंबर 2019 तक पंजाब के संगरूर नामक स्थान में CBSE राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें आई.एस. डब्ल्यू.पी. आर्चरी अकेडमी से प्रशिक्षित काजल महतो ने भाग लिया एवं 1 रजत (सिल्वर) पदक जीता।

24 से 28 नवंबर 2019 तक आंध्र प्रदेश के कडप्पा के SGFI स्कूल नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें आई.एस.डब्ल्यू.पी. आर्चरी अकेडमी के विकास देओगम ने टीम सिल्वर मेडल जीता।



5 से 8 नवंबर, 2019 को सोनीपत, हरियाणा में आर्चरी ओपन सिलेक्शन ट्रायल फॉर खेलो इंडिया युथ गेम्स SAI NEC का आयोजन किया गया जिसमें के.जी.बी.वी पोटका की छात्रा कुमारी लक्ष्मी हेम्ब्रोम ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 2 सिल्वर पदक हासिल किया और साथ ही रूपये 10,000.00 प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त की।

7 .11 .2019 को आंध्र प्रदेश के ओंगोल में महिला फुटबॉल फेडरेशन कप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली झारखण्ड की टीम में के.जी.बी.भी की पूरब छात्रा रनोमुनी मुर्मू का भी चयन हुआ।



### श्रद्धांजलि

आई.एस.डब्ल्यू.पी रॉड मिल विभाग में कार्यरत श्री रणबीर सिंह का 22 दिसंबर 2019 निधन हो गया। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं उनके आत्मा की शांति की कामना करते हैं।



रणबीर सिंह



## खेल - कूद

26 नवंबर 2019 को टाटा स्टील द्वारा आयोजित इंटर डिविजनल थ्रो बॉल प्रतियोगिता में आई.एस.डब्ल्यू.पी की महिला टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। टीम में कविता कुमारी,शिवांगी किरण,ज्योति,एकता,सोनी शर्मा,रीना एवं सलमा शामिल थे। टाटा स्टील के हेड इंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट श्रीमती सरोज सिंह द्वारा विजयी टीम को पुरस्कृत किया गया।

3 नवंबर 2019 आई एस डब्ल्यू पी के स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में इंटर विभागीय बास्केट बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में चार विभाग वायर मिल,जेम्को, जनरल सर्विसेज व राॅड मिल ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में राॅड मिल की टीम विजेता और जनरल सर्विसेज की टीम उप विजेता रही, जबकि जेम्को के टीम को तीसरा स्थान मिला।

टाटा स्टील के इंटर डिविजनल हॉकी प्रतियोगिता (पुरुषों) का आयोजन आई एस डब्ल्यू पी के नवल टाटा हॉकी अकादमी में आयोजित किया गया।

इस प्रतियोगिता में टाटा स्टील के इंटर विभागीय टीम के अलावा इसकी अनुसंगी कंपनी की कई टीमों ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में वेस्ट बोकारो की टीम विजेता बनी।



## रसोई के कचरे से खाद कैसे बनायें?



### आसान स्टेप्स जिन्की मदद से आप अपने रसोई के कचरे से कम्पोस्ट बना सकते हैं

1. अपने रसोई घर के गीले कचरे जैसे बची खुची सब्जियां, खाना का बचा हुआ कचरे को अलग कूड़ेदान में रखें।

गीली हरी चीजें – इनमें नाइट्रोजन की भरि मात्रा होती है

- बचा खुचा खाना
- सब्जियों और फलों का बचा हुआ कचरा
- चाय बचा हुआ
- फूल
- छोटे घांस के टुकड़े
- अंडे का छिलका

2. सूखे पत्ते, और ठोस छोटे-मोटे कचरे को एक छोटे से कूड़ेदान में रखें।

सुखी भूरी चीजें – इनमें कार्बन की अधिक मात्रा होती है

- सुखी पत्तियाँ
- लकड़ी का पाउडर
- हल्का धुल मिट्टी
- भूसा या धान का छिलका

3. एक बड़ा सा मिट्टी का मटका या एक बाल्टी (Compost Bin) ले लीजिये। आप चाहें तो घर के पीछे एक छोटा गड्ढा भी खोद सकते हैं जिसे Compost Pit कहा जाता है। उसके बाद कम्पोस्ट बिन के चारों भाग में 4-5 छेद कर दें जिससे की उसमें रखने वाले कूड़े में हवा लग सके।

4. उस पात्र (Compost Bin) के नीचले भाग में थोड़ा सा मिट्टी बिछा दें। उसके बाद गीले कचरे और सूखे कचरे को एक के ऊपर एक थोड़े-थोड़े परतों में उस पात्र में डालते जाएँ।

5. जब वह पात्र दोनों प्रकार सूखे और गीले कचरे के परतों से भर जाये तो उसे एक प्लास्टिक या लकड़ी के फट्टे से ढक दें। ढकने से पात्र के अंदर नमी या गीलापन बना रहता है।

6. कुछ-कुछ दिनों में देखते रहें। अगर पात्र के अन्दर मिश्रण ज्यादा सुखा हुआ है हांथों से हल्का-हल्का पानी का छिडकाव करें और दोबारा प्लास्टिक को ढक दें।

7. 2-3 महीने के बाद सुखा खाद बनना अपने आप शुरू हो जायेगा। जो दिखने में गाढ़ा भूरा और काला सा होता है और मिट्टी की खुशबु उसमें होती है।

## “सैर” – मानव शरीर के लिए सबसे बेहतर औषधि है

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अच्छी सेहत सबके लिये एक अमूल्य निधि है। निरोगी काया एवं दीर्घ आयु का लक्ष्य प्राप्त करने में सैर सहायक होती है।

सैर से पूर्व निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए :

1. व्यायाम शुरू करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक से जाँच करें।
2. उचित कपड़े और जूते पहनें।
3. एक घड़ी पहनें ताकि आप चलने में लगने वाले समय की निगरानी कर सकें।

